

September 04, 2025

To

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex,

SYMBOL: POLICYBZR

Bandra (East), Mumbai – 400051

BSE Limited

Department of Corporate Services/ Listing

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001

SCRIP CODE: 543390

Sub.: Newspaper Publication of Public Notice regarding 17th Annual General Meeting("AGM") of the Company to be held through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") before dispatch of Notice of the AGM

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published today for the attention of the Shareholders before dispatch of notice of the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Company, which is scheduled to be held on Friday, September 26, 2025, at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, published in the following newspapers:

- 1. Financial Express (All India editions in English language)
- 2. Jansatta (All India editions in Hindi (vernacular) language)

The aforesaid intimation will also be hosted on the Company's website at www.pbfintech.in


You are requested to take the above on records.

Thanking you,

Yours Sincerely For PB Fintech Limited

Bhasker Joshi Company Secretary and Compliance Officer

Enclosure: As Above









FINANCIAL EXPRESS

TENNECO FEDERAL-MOGUL BEARINGS INDIA LIMITED

CIN: U29199HR2006PLC04326 Regd. Office: 10° Floor, Paras Twin Towers, Tower- B, Sector-54, Golf Course Road, Gurugram-122002 Tel.: +91 124 4784530, E-mail: abhishek.nagar@tenneco.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 19 "Annual General Meeting ("AGM") of FEDERAL-MOGUL BEARINGS INDIA LIMITED ("the Company") is Produced to be held on Friday, 26" September, 2025 at 1:00PM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 08 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, followed by Circular No. 02/2021 date January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice calling the AGM. For the purposes of e-AGM, deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company.

In compliance with the above said MCA circulars, electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the Financial Yea 2024-2025 have already been emailed to all the shareholders whose email addresses are registered/available with the Company/Regis and Transfer Agent ("RTA")/Depository Participants ("DP's"). e-mailing of all Notices has been completed on 2nd September 2025.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time, the Company is providing facility of voting by electronic means and the businesses set out in Notice of 19° AGM, m be transacted through e-voting.

The cut-off date for determining the eligibility to vote through e-voting is Friday, 19th September, 2025.

Members holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut-off date i.e., Friday, 19th September, 2025 may cast their vote electronically on businesses as set out in the notice through e-voting.

The remote e-voting shall begin on Tuesday, 23" September 2025 09.00 A.M. and ends on Thursday, 25" September, 2025 at 05.00 P.M. The facility of voting through electronic voting system shall also be made

available during the meeting on the day of the AGM for those members who have not already cast their vote by remote e-voting.

The Board has appointed Ms. Jaya Yadav, Company Secretary in Practice as scrutinizer for conducting the voting in a fair and transparent manner A person who has acquired shares and become a Member of the

Company after the Notice was sent and holding shares as on the cut-of date i.e., 19th September, 2025, may obtain LOGIN ID and PASSWORD by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if he/she is already registered with KFin Technologies Limited (KFINTECH) for password for casting the vote through e-voting.

Notice of the 19th AGM is available on the website of KFin Technologie imited (KFINTECH) i.e. www.kfintech.com.

evoting.kfintech.com or write an e-mail to evoting@kfintech.com einward.ris@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

For Federal-Mogul Bearings India Limited

Place: Gurugram Dated: 03" September 2025

(Kapil Arora) Whole-Time Director

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



COMFORT INTECH LIMITED CIN: L74110DD1994PLC001678

Registered Office.: 106, Avkar, Algani Nagar, Kalaria, Darnan, Daman & Diu -396210; porate Office.: A-301, Hetal Arch, Opp. Natraj Market, S.V. Road, Malad (West), Mumbai-400064; Phone No.: 022-6894-8500/08/09, Fax: 022-2889-2527; Email: Info@comfortintech.com Website: www.comfortintech.com

AND RECORD DATE

In continuation of our newspaper notice published on Statuday, August 30, 2025, NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) the Meeting') of the Members of COMFORT INTECH LIMITED (the Company) will be held on Thursday, September 25, 2025 at 11:30 A.M. (STATE AGM). Though Video Conferencing (VCV) Other Audio Visual Means (OVAM), to transact the business as stated in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the ACT) read with relevant Pules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Isling Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (ISEBI Listing Regulations), read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI') from time to time, without the physical presence of the Members at the common venue.

The Annual Report of the Company including AGM Notice for the financial year 2024-2025 ('Annual Infe Annual Heport of the Company inclusions of Asia Mixtoce for the intainous year 2028-2026 (Annual Report) were sent through electronic mode, only to all those members whose Email for are registers with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTAT) or the Depositories, in accordance with the MCA and SEBI circulars and same has been completed on Wednesday, September 03, 2025 Further, as per the SEBI Listing Regulations, the Company has sent a latter to those shareholders whose Email fact are not registered with the Company or its RTAT or the Depositories, providing the web link, including the exact path, to access the Annual Report on the Company's website.

web link, including the exact path, to access the Annual Report on the Company's website. Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The detailed instruction for joining the AGM and the manner of casting use through remote electronic voting ('remote e-votion or the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participal through the VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of resolving the quorum under Section of the AGM. The Annual Report along with the Notice is available on the Company's website waxw.comfactifieds.com and on the verbale of the Stock Eachange where shares of the Company are letted to RSE Limited at www.fsendia.com. Further, the Notice is also available on the web of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.sycting.nsdl.com.

Members holding shares in physical mode and/ or who have not registered/ updated their Email Ids with the Company/ it's RTA/ the Depositories and/ or who has acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the **cut-off date**, i.e. Thursday, September 18, 2025 can obtain login details for joining the AGM through VC/OAVM facilit ncluding remote e-votingle-voting by sending a request at <u>evoting@nsdl.co.in</u> and may also refer to the voting instructions on the NSDL website. However, if a member is already registered with NSDL en they can use their existing User ID and password for casting vote or following the procedure as mentioned in the AGM Notice. Further, any person, who ceases to be the Member of the Compan as on the cut-off date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information

Existing:

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 106 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 4 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing a facility to the members to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice convening the meeting. The Company has availed the services of NSDL to provide the facility of remote e-voting /e-voting during the AGM. Members whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the out-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting during the meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to their sheres in paid up equity capital of the Company as on the out-off date.

The remote e-voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-voting From 9:00 A.M. (IST) on Monday, September 22, 2025 Upto 5:00 P.M. (IST) on Wednesday, September 24, 2025

During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in tematerialised form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The remote e-voting nodule shall be disabled by the NSDL for voting thereafter. The facility of e-voting will also be made valiable during the AGM. Only those members attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barried from doing so, will be able to vote during the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. Once the vote is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently.

The Company has appointed, Mrs. Ramadevi Ventgalla, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7345 and CP No. 17889) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting process in a fair and transparent manner.

Members, who need assistance and/or having any grievances before or during the AGM regarding remote e-voting or e-voting facility and/or VC/OAVM facility, may contact NSOL for technical assistance viz. Mr. Rahul Rajbhar at exching@nsdl.co.in/ rahul.rajbhar@nsdl.com or call on toll free no to22 - 4866 7000, 022 - 2489 7000 and 022 - 2489 4200 or email at info@comfortintech.com or call at Tel. No. 022-68948508/09

Dividend:

Dividence:


Wembers may note that the Board of Directors at its Meeting held on Tuesday, May 20, 2025, have recommended a final Dividend of 7% (Seven percent) on the Paid-up Equity Share Capital of the Company, i.e., Rs. 0.07°. (Rupees Seven Paise Drily) per equity share of Face Value of Rs. 0.1°. Rupee One Only) each for the financial year ended March 31, 2025, subject to approval of the shareholders at the ensuing AGM of the Company. The Dividend, if approved at the AGM, will be paid within 30 days of the AGM. The Company has fixed Truerday, September 18, 2025 as the 'Record Date' for determining eligible equity shareholders for dividend.

Shareholders may please note that in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by and read with the provisions of the Finance Act, 2020, dividend declared and paid by any company with effect from April 01, 2020, is basable in the hands of Shareholders and such company is required to deduct tax at source (*TDS*) from dividend paid to the Shareholders at the company is required to beduce tax as source (TLO) from introducing part or the characteristics as we applicable rates. For more details, please refer to email communication sent to shareholders for the purpose of TDS. The above information is also available on the website of the Company www.comfortintech.com and on the website of the Stock Exchange at www.comfortintech.com and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made there the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 19, 2025 till Thursday, September 25, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM and final Dividend.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

CS OMKAR M. MISTRY
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER







PB FINTECH LIMITED

CIN: L51909HR2008PLC037998

Registered Office: Plot No. 119, Sector-44, Gurugram-122001, Haryana Tel.: 0124-4562900, Fax: 0124-4562907, Website: www.pbfintech.in; E-mail: cosec@policybazaar.com; complianceofficer@pbfintech.in

NOTICE OF INFORMATION REGARDING 17TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF PB FINTECH LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Members are hereby informed that the 17th Annual General Meeting ('AGM') of PB Fintech Limited ('Company') is scheduled to be held through VC/OAVM on Friday, September 26, 2025, at 11.00 A.M. (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act'), rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and any other circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred as 'Circulars'), to transact the business as set out in the Notice of AGM ('Notice'). Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

al year 2024-25 ('Annual Report') will be sent, in due course, only through electronic mode to all the Members whose names appear in the register of members/list of beneficial owners as on Friday, August 29, 2025 and whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")/depositories/depository participants ("DP"). The same will also be available on the website of the Company at www.pbfintech.in, Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, e-voting agency i.e., MUFG Intime India Private Limited ('MUFG') at https://instavote.linkintime.co.in/ and Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') of the Company viz. MUFG at www.in.mpms.mufg.com. The physical copies of the Notice along with Annual Report shall be sent to those Members who request for the same. Additionally, a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Notice and Annual Report are available, is being sent to those shareholder(s) who have not registered their e-mail addresses with Company/RTA/Depository Participant(s).

Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice through electronic voting system ('e-voting'). The manner of voting, including voting remotely ('remote e-voting') by the Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the Members who have not registered their e-mail address will be provided in the Notice. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically

Date: September 03, 2025

Place: Gurugram

- Members holding share(s) in physical mode; by registering e-mail addresses with MUFG. Click the link on their website www.in.mpms.mufg.com at the Investor Services tab, choose the E-mail Registration heading and follow the registration process as guided therein. The Members are requested to provide details such as Name, DPID/Client ID, PAN, mobile number and e-mail ID. In case of any query, a member may send an e-mail to MUFG at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com or delhi@in.mpms.mufg.com.
- Members holding share(s) in electronic mode; by registering/updating their e-mail ID in respect of demat holdings with the respective DPs by following the procedure prescribed by the DPs for receiving all communications from the Company electronically.
- In addition to the aforesaid the Company has set up a process for the limited purpose of allowing members to temporarily update their e-mail addresses by accessing the following link: https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.htm]. Members can update their e-mail addresses to receive shareholders' communications, including the Annual Report 2024-25 and the AGM Notice.

Members are requested to carefully read the Notice and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting yote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

In case shareholders/members have any queries regarding login/e-voting, they may send an e-mail to <code>instameet@in.mpms.mufg.com</code> or contact on: -Tel.: 022 – 4918 6000 / 4918 6175 or write an e-mail to Company Secretary and Compliance Officer of the Company at complianceofficer@pbfintech.in or

By order of the Board of Directors For PB Fintech Limited

Bhasker Joshi Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: F8032



YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2008PLC174706 Regd. Office: JA 108 DLF Tower A, South Delhi, Jasola District Centre, Delhi, India, 110025 Cornorate Office: Second Floor, Sovereign Capital Gate, FC 12, Sector 16A

Noida, Ultar Pradesh, India, 201301 Tel.: 011-49967892; Website: https://www.yatharthhospitals.com Email: cs@yatharthhospitals.com

INFORMATION REGARDING 18[™] ANNUAL GENERAL MEETING

- members of YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED ("Company") are hereby informed that Eighteenth (18") Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 30, 2025 at 12:00 Noon (IST) onwards through Video Conference ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses that will be set forth in the notic of 18th AGM ("Notice")
- The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and usubsequent Circulars issued in this regard, latest being General Circular no 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA Circulars") has permitted the holding o AGM through VC/OAVM. In compliance with the MCA Circulars and the relevan provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the 18th AGM of the Company will be held through VC/OAVM, without the presence of the members at a common venue. Members can join and participate in the 18* AGM through VC/OAVN facility only.
- In accordance with MCA Circulars and Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD 2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by SEBI read with SEBI Maste Circular no. SEBH/D/CFD/PoD2/CIR/P/ 0155 dated November 11, 2024, the Notice and Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent, in due course, through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/its registrar and share transfer agent i.e., MUFG intime India Private Limited (formerly known as 'Link Inlime India Private Limited') ("RTA" or "MIIPL") or with respective Depository Participants ("DPs"). Notice and Annual Report for the financial year 2024-25 will also be available on the Company's website at https://www.yatharthhospitals.com, on the website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com and on the vebsite of MIIPL at https://instavote.linkintime.co.in
- In case any member is desirous of obtaining physical copy of Notice and Annua Report for the financial year 2024-25, he/she may send a request to the Company by writing at investor.relations@yatharthhospitals.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.
- The instructions for joining and manner of participation in the 18th AGM will be provided in the Notice. Members attending the 18th AGM through VC/DAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.

 Manner of casting votes through electronic mode

The Company is providing remote electronic voting facility ("remote E-voting") to its members to cast their votes on all the resolutions as would be set out in the Notice Further, the Company will provide the facility of electronic voting during the 18th

Detailed procedure which is required to be followed by the members for remote E voting and E-voting will be provided in the Notice. Members attending the 18° AGM and have not cast vote(s) by remote E-voting will be eligible to cast their vote through E-voting during the AGM.

Members holding shares in Demat Form are advised to register/update particulars o their e-mail address, bank account, change of postal address and mobile numbe etc. with respective DPs. The e-mail address registered with the DPs will be used for sending official communications from the Company.

This public notice is being issued for the information and benefits of all the member of the Company in compliance with MCA and SEBI Circulars. By Order of the Board of Director

For Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited Ritesh Mishra

Date: September 03, 2025

Company Secretary & Compliance Officer

TENNECO FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1954PLC002452 Registered Office: 803, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, New Deihi – 110034

Corporate Office: 10th Floor, Paras Twin Towers, Tower- B, Sector- 54, Golf Course Road, Guruyram-122002

Website: www.federalmogulgoetzeindia.net:
Tel.: +91 124 4784530; +91 11 49057597,E-mail: investorgrievance@tenneco.com

NOTICE The Notice is hereby given that the 70" Annual General Meeting ("AGM"

of FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED ("the Co scheduled to be held on Monday, 29" September, 2025 at 11:00 A.M. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 08 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, followed by Circular No. 02/2021 date January 13 2021, Circular No. 19/ 2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21, 2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022,09/2023 date September 25, 2023 and Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the securities and Exchange Board of India (SEBI) dated May 12, 2020 ollowed by Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, CircularNo. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/ 62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4dated January 05, 2023 SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/ 0164 dated October 06, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD 2IP/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 (hereinafter collectively referred to as "SEBI Circulars") to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice calling the AGM.The Company's Registered Office i.e. 803. Best Sky Tower, Netaii Subhash Place, Ne Delhi - 110034 will be deemed to be the venue for the AGM.

In compliance with the above said MCA and SEBI circulars, only

electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the Annua Report for the Financial Year 2024-2025 have already been emaile o all the shareholders whose email addresses are egistered/available with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA")/Depository Participants ("DP"s"). The emailing of all lotices has been completed on 3" September, 2025.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, Secretarial Standard-2 on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended from time to time, the Company is providing facility o voting by electronic means and the businesses set out in Notice of 70° AGM, may be transacted through such voting. The facility of voting through electronic voting system shall also be made available during the meeting on the day of the AGM for those members who have not already cast their vote by remote e-voting. The Board has appointed Mr. Abhishek Bansal, Advocate as scrutinizer for conducting the voting in a air and transparent manner.

Members holding shares either in physical or in dematerialized for as on the cut-off date i.e., Monday, 22" September, 2025, may car their vote electronically on businesses as set out in the notic hrough such remote e-voting.

person who has acquired shares and become a Member of the ompany after the Notice was sent and holding shares as on the cut-of date i.e., 22" September, 2025, may obtain LOGIN ID and PASSWORD y sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are leady registered with NSDL for remote e-voting then members may use their existing user ID and password for casting the vote.

The remote e-voting shall begin on Friday, 26" September, 2025 a 09.00 A.M. and ends on Sunday, 28" September, 2025 at 05.00 P.M. The remote E-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. or

Sunday, 28" September, 2025. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the Members participating in the AGM hrough VC/OVAM who have not already cast their votes by remote e voting shall be able to exercise their right in the meeting. Members whose names are recorded in the register of members or in the

gister of beneficial owners maintained by the depositories as on the oting at Annual General Meeting. Members may note that notice of the 70" AGM and the Annual Report fo

ie Financial Year 2024-2025 are also available on Company's we at federalmogulgoetzeindia.net/web/fin_annualreports.htm the websit of NSDL www.evoting.nsdl.com as well as on the website of the stock exchange namely NSE & BSE and can be made available for inspection by vriting to the Company at investorgrievance@tenneco.com. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs for Members and remote e-voting user manual for Members available

at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000or send a request to Mr. Utkarsh Gupta at evoting@nsdl.co.in. The register of members and share transfer books of Company shall remain closed from Monday, 22rd Septer

2025 to Monday, 29th September, 2025 (both days inclusive) for the se of 70" AGM. For Federal-Mogul Goetze (India) Limited

lace: Gurugram lated: 03.09.2025

Whole-time Director-Legal & Compar Membership No. F5993

GOGIA CAPITAL GROWTH LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059674

Regd. Office:- B-4f51, Third Floor, Safdarjung Enclave, Delhi 110029

Email:- compliance@goglacap.com, Website:- www.goglacap.com,
Contact no: 011-49418870 NOTICE

Notice is hereby given that 31st Annual General Meeting (AGM), of members o Gogia Capital Growth Limited will be held on Saturday, 27th September, 2025 at 02:00 P.M. through video conferencing (VC)/ other audio-visual means (OAVM) to transact the businesses given in Notice.

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013, and rules made thereunder, SEBI (LODR) Regulations 2015, read with general circular No. 14/2020 dated 08/04/2020, 09/2023 dated 25/09/2023 and SEBI Circulars.

In accordance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions of the Companies Act. 2013. the Company has completed electronic dispatch of the Notice of AGM, Annual Report for FY 2024-25, and other relevant documents to all Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories.

The Notice and Annual Report are also available on the Company's website at www.gogiacap.com and on the websites of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed at www.bseindia.com

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and as per Regulation 42 of the SEBI LODR) Regulation, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of he Company will remain closed from Wednesday, 21st September 2025 to Saturday 27th September 2025 (both days inclusive).

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote evoting and voting at AGM is 21st September, 2025.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members. The e-voting period shall commence on Wednesday, September 24, 2025 (9:00 AM IST) and end on Friday, September 26, 2025 (5:00 PM IST). Members may cast their votes electronically during this period.

Members who have not cast their votes by remote e-voting may do so during the AGM

For detailed instructions on e-voting and participation in the AGM, Members are equested to refer to the Notice of AGM.

n case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for dembers and remote e-voting user manual for Members available at the downloads lection of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no... 1800-222-990.

Date: 04.09.2025

For Gogia Capital Growth Limited

Ankur Gogia Managing Director



CIN: L74999RJ1938PLC019511

Regd. Office: Jaykaypuram, District Sirohi, Rajasthan- 307019 Secretarial Office: 3rd Floor, Gulab Bhawan (Rear Wing), 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Email: kic.investors@jkmail.com, Website: www.jklakshmicement.com Phone: 91-11-68201862, Fax: 02971-244417

NOTICE OF 85TH ANNUAL GENERAL MEETING, E- VOTING AND RECORD DATE

The 85th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Friday, the 26th September 2025 at 2:30 P.M., Indian Standard Time (AGM) through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable Circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The procedure for attending the AGM through VC / OAVM is well explained in Notes to the Notice of AGM, Members participating in the AGM through VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid Circulars, the Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 containing the Financial Statements, Report of Directors and Auditors thereon and other documents required to be attached thereto and the Notice convening the AGM have been sent to the Members of the Company and other persons so entitled, whose E-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent: MCS Share Transfer Agent Ltd., New Delhi (RTA) or Depository Participants (DP), on 3rd September 2025. The aforesaid document(s) are also available and can be downloaded from the website of Company at https://www.jklakshmicement. com/annual-report-and-agm-company/ website of the Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Record Date: The Company had fixed Thursday, 12th June 2025 as Record Date for the purpose of payment of Dividend for the Financial Year 2024-25, if declared at the AGM.

<u>E-Voting</u>: The Company is providing to its Members, holding Equity Shares either in physical or dematerialized form as on Friday, 19th September 2025 (Cut-off Date), the facility to exercise their right to vote by electronic means, in the following manner, in respect of the items to be considered/ resolutions proposed to be passed at the AGM, through E-Voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL):

(A) Remote E-Voting: The remote E-Voting period commences Monday, 22nd September 2025 (10.00 A.M.) and ends on Thursday, 25th September 2025 (5.00 P.M.) The remote E-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.

(B) E-voting at the AGM: The facility for E-Voting shall also be made available at the AGM to those Members who have not cast their vote by remote E-Voting and are attending the AGM through VC or OVAM.

A person whose name is recorded in the Register of Members

or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the Cut-off Date, only shall be entitled to avail the facility of remote E-Voting or E-Voting at the AGM. The manner of remote E-Voting/ E-Voting at the AGM by the Members holding shares in dematerialized mode/ physical mode & registering E-mail address of Members who have not registered their E-mail addresses and information, instructions

and procedure relating to Login ID and Password for E-Voting, are provided in the Notice of AGM which is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The Members who have already cast their vote by remote E-Voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC or OVAM, but shall not be entitled to vote again at

Any person, who acquire Shares and becomes Member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds Equity Shares as on the Cut-off date, may generate the as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for E-Voting, such Member can use the existing Login details for casting the vote through E-Voting.

Manner of registering/updating E-mail addresses and Bank Account details for receiving Notice/ Annual Report and Dividend electronically (KYC):

(A) Shares held in Physical Mode: Please register/update the KYC details with the Company's RTA, MCS Share Transfer Agent Limited at 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Indl. Area, Phase-I, New Delhi- 110020 or Email: admin@ mcsregistrar.com in prescribed Form ISR-1 duly filled and signed along with other relevant forms. Members may access the relevant Forms available on the website of the Company at https://www.jklakshmicement.com/kyc-documents/;

(B) Shares held in Demat Mode: Please contact your DP and register/update your KYC details in your demat account, as per the process advised by your DP.

After due verification and if requested, the Company/ RTA will forward the procedure for obtaining their login credentials to their registered E-mail address.

Further, to create awareness among Members to update their KYC details and claim any unpaid or unclaimed dividends before they get transferred to the Investor Education and Protection Fund ["IEPF"], IEPF Authority, Ministry of Corporate Affairs has via its communication dated 16th July, 2025 requested companies to launch a 100 days Campaign - "Saksham Niveshak", to reach out to shareholders whose dividend remain unpaid/unclaimed. We therefore request all Members to update their KYC details as explained in the points (A) and (B) mentioned above and claim their unclaimed dividend, if any

Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an E-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 18002109911. You may also write to the Company at its Secretarial Office given above for any assistance.

For JK Lakshmi Cement Limited



Amit Chaurasia Date: 3rd September 2025 Company Secretary

epaper.financialexpress.com New Delhi

sd/-(Dr. Khalid Iqbal Khan)

अजंता सोया लिमिटेड सीआईएन L15494RJ1992PLC016617 कार्यालयः एसपी— 918, फेज—III, औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर, मिवाड़ी 301 019, राजस्थान फोन नंबर 911-6176727, 911-61288 निगम कार्यातस्य 13 मंजिरा, बिगजो टावर, ए-व, नेताजी सुमाब प्लेस, वर्जीपुर जिला केंद्र, दिल्ली—10034 फोन नंबर 91—11—42516151, फैक्स 91—11—42515100 www.ajantasoya.com, ईमिक: cs@ajantasoya.com

वीडियो कॉन्क्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित होने वार्ली 34वीं वार्षिक आम बैठक (एनीएम) के संबंच में जानकारी

तिद्वारा सूचित किया जाता है कि अजंता सोया लिमिटेड के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठव 'एजीएम') मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कांऋंसिं 'वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमाँ ('ओएवीएम') के माध्यम से, आयोजित की जाएगी। कंपर्न बिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालi, 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 के साथ, इस संबंध में कॉर्पोरेट मामलों व मंत्रातय द्वारा जारी पिछले परिपत्नों के साथ-साथ मारतीय प्रतिमृत्ति और विनिमय बोर्ड ("सेवी") इस जारी तीसरा परिपत्न संख्या सेवी एचओ /सीएफडी /सीएफडी-पीओर्ड 2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024, साथ ही इस संबंध में सेवी द्वारा जार्र अन्य परिपत्रों (जिन्हें सामृहिक रूप से "परिपत्र" कहा जाता है), और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व औ प्रकटीकरण आवश्यकताएँ। विनियम, 2015 के अनुसार, एजीएन की सूचना (सूचनाण) में निर्वार्धित व्यवसाय(व्यवसायों) का संचालन करने के लिए, जिसे नियत समय में प्रसारित किया जाएगा। वार्षिक आम बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

जार उपराण करना का उपायुष्ट कावालय माना आरामा सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविद्या के मात्रम से ही वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सत्स्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना आएगा। उपरोक्त परिपत्नों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वितीय वर्ष 2024–25 की

वार्षिक रिपोर्ट केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ईमेल परे कंपनी/डिपोजिटरी प्रतिभागी(औ) के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक आम बैठक (एजीएम्) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो विशेष रूप से इसके लिए अनुरोध करेंगे। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइटॉ (www.njantasoya.com), उस स्टॉक एक्सचेंज (www.bscindia.com), और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिंटरी लिमिटेड (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध कर्याई जाएगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी उन सदस्यों को वेब लिंक (वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचना

का सटीक पथ सहित) प्रदान करते हुए एक पत्र भेजेगी, जिनके ईमेल पते कंपनी ६ रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') / विघोंजिटरी प्रतिनागी(ओं) के पान पजीकृत नहीं हैं। लागू वैद्यानिक प्रवाधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों के दृरख ई-चौटींन की सुविधा के साध-साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएग) के दौरान होने वाले सभी व्यवसायों के लिए ई-चोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। ई-बोटिंग सुविधा और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शामिल होने की प्रक्रिय के बारे में विस्तृत निर्देश सुवना में दिए जाएँगे। जिन सक्त्यों में पीजिरुण नहीं क्रया। है या अपना ईमेल पता अपबेट नहीं किया है, उनसे अनुरोव है कि वे निम्नतिखित निर्देशों के अनुसार ऐसा करें:

क. भौतिक होल्डिंगः

मोतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे फॉर्म 'रू-1 की विधिवत मरी औ इस्ताक्षरित प्रतियों के साथ, संबंधित दस्तावेजों के साथ, निम्नलिखित पते पर आरटीए को जम करके अपने ईमेल पत्ते पंजीकृत, अपडेट करें रक्ताईलाइन फाइनींशियल सर्विस्त प्राइवेट लिमिटेड,

डी—153 ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—।, नई दिल्ली — 110020 संपर्क संपर्क स्थाः 011—40450193 से 97

ख. डीमैट होल्डिंगः डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी

से संपर्क करें और डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खातों में अपने ईमेल पते गौतिक रूप से शेयर रखने वाले सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से फॉर्म **ISR-1** के माध्यम से अपन

ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पैन और अन्य केवाईसी विवरण प्रस्तुत /अपडेट करना होगा, फॉर्म एसएस-13 के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत करना होगाय फॉर्म ISR-3 के माध्यम से नामांकन रे बाइर निकलना होगा, या फॉर्म एसएस-14 के माध्यम से नामांकन बदलना होगा, यह सब सेवी परिक संख्या SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसार है। ये फॉर्म कंपनी की वेबसाइट (www.ajantasoya.com) पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य यह भी ध्यान दें कि.सेबी के आदेश के अनुसार, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिनके फोलियो में अद्यतन केवाईसी विवरण नहीं हैं, वे 1 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कोई भी मुगतान (लामांश,

व्याज या मोचन सहित) प्राप्त करने के पात्र होंगे। सदस्यों से अनुनेष हैं कि वे अपना पूर्प कि विशया पंजीकृत/अपबेट करें— क. अपने विरोधितरी पार्टिसियंट (डीमी) के साथ, जिसके पास वे अपना डीमेट खाता रखते हैं, यदि शेयर डीमेट मोड में रखे जाते हैं, तो डिपॉजिटरी पार्टिसियंट(ओ) द्वारा आवश्यकतानुसार फॉर्म औ दस्तावेज जमा करके, और

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) के साथ, यदि शेयर भौतिक मो उस रुवाहरा अञ्चलावार पाचरा अवस्था त्यानाञ्च (त्यानाञ्च (त्यानाञ्च व्यानाञ्च व्यानाञ्च व्यानाञ्च व्यानाञ्च व में रखे जाती हैं, तो उनने उपरोक्त पते पर आवश्यक सहायक दस्तावोजों के साथ विविवत गया और हस्तावारित फॉर्म आईएसआर-। जमा करके। सदस्यों से अनुरोध है कि ये एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें, विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से

अपना वोट डालने के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कपिर

POLYMED

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 232वीं, तृतीय मंजिल, ओखला इण्डीस्ट्रबल एस्टेट, फेन-III, नई दिल्ली-110020 सीआईएन : L40300DL1995PLC066923, फोन : 011-33550700, फैक्स : 011-26321894 इन्पेल : investorcare@polymedicure.com, वंबसाइट : www.polymedicure.com (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)∕ओएवीएम (अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों) के माध्यम से आये ने वाली पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या एलद्वारा शुष्ता विश्व जाता है। कि कोशारट काथ ने मालप (स्वारा) होरा जीरा तामान्य भारपत्र तल्ल्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 19/2021, 21/2021, 20/2022, 19/2023 और 95/2024 अन्न सभी लागु कानुनों और भारतीय प्रतिभृति और विमिन्नय बोर्ड ('सेवी') परिपन्न संस्था संसी/एचओ/सीएफडी/—पीजोडी-2-पी/सीजाईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024, भारत सरकार और समय-समय पर संशोधित पारतीय प्रतिभृति और विमिन्नय बोर्ड (सेवी) द्वारा जारी परिपन्नों के अनुपालन में एजीएम को सुनना में निर्धाति साधारण और विशेष व्यवसायों को करने के लिए कंपनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को 10:00 वर्ज पूर्वा. पा.मा.स. चींडियो कॉन्फ्रेंस ('चींवी')अन्य आडियो विश्वअल सामनी ('ओएबीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी का पंचीकृत कार्यालय अर्थात 232-चीं, वर्षाये तत, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 को वार्षिक आम बैठक के लिए स्थल माना जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना, निदेशक की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण की इलेक्टॉनिक प्रतियां और रिमोट ई-वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं वा रावस्त्राप्ति आयां आ राताः रहानाः प्रत्यानां प्रत्यानां का स्वार्धित का राताः वा रावस्त्राप्ति जाने का नावस्त्राप्ति का निक्तं हैं सेल पर्ते कंपनी हिपाजिद्यों प्रतिभागी त्यीं के साथ प्रत्योहम की सुचना का ईमेल भेजने की पूर्णता तिथि 03 सितंबर, 2025 थी। यदि आपने कंपनी आरदीए हिपाजिद्यों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की हैं, तो कृपया विन वर्ष

2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने हेतु नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक शारिता शियरभारकों से अन्योध है कि वे कंपनी की अवीं वार्षिक आप बैठक के लिए अपने हीसेल राषरचारका स अनुराय है कि ये फर्ना को 2004 साथक आम थठक का राष्ट्र आर्था है. आईडी, मोबाइल नेनर, बैंक खातें का विवरण औरणा मंत्री आईएआरान में अन्य दिवरण और सेवी द्वारा निर्धारित अन्य प्रासंगिक प्रपत्र कंपनी के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-कक् नई

पुरापुर्स (सावका ातानाइ-, प्रान्त), स्त्रा का, त्रिक्तानाइन हिस्सी-110020, ईमेल आईडी: investor@masserv.com, वेबसाइट: www.masserv.com को प्रस्तुत करें। इस संबंध में सेवी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक प्रपत्न आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com और कंपनी की वेबसाइट www.polymedicure.com पर डाउनलोड टैंग के अर्तान्त और कंपनी की वेबसाइट www.polymedicure.com पर डाउनलोड टैंब के अंतर्गत उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें और अपने विवरण समय पर अपडेट

कुपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिय के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकर क्यें क्यें कें के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। यदि कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान की घोषणा की जाती है, तो कृपया एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करें।

यथासंशोधित कंपनी (पबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ प्रतित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनसार, कंपनी ने नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वार उनके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसायों के लेन-देन के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग अविध सोमवार, 22 सितंबर, 2025 (9:00 बजे पुर्वा. भा.मा.स.) से शुरू होकर बुधवार, 24 सितंबर, 2025 (5:00 बजे अप. भा.मा.स.) तक है। उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिय जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनत हैं और कर-ऑफ तारीख यानी गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, वह www.evol ing.nsdl.com पर या आरटीए, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को investor@masserv.com प अनरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही रिमोट े नीटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूज आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद. सदस्य को इसे बाद में बदलने की अनमति नहीं होगी। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपन ोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे मेसर्स पी.के. मिश्रा एंड एसोसिएटस (सदस्यता संख्या एफसीएस 4305 और सीपी संख्या 16222) के कार्यरत कंपनी सेकेटरीज को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्प्रथ और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए कावरात करना राज्यन्याय का हुन्यादग आक्रमा का गान्यम का सायरका सायक से प्रयासाय करने का गायक संयोधक निष्कृत किया गया है। सोनों इं-योटिंग की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम वैक्क की सूचना के साथ संलग्न नोट्स में दी गई है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत श्री अधिनाश चंद्रा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, 232-बी, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक एस्टेट नई दिल्ली-110020, फोन-011-33550700, ईमेल: cs@polymedicure.com को भेजी ज

सकती है। समय-समय पर संजोधित कंपनी (पर्लंधन एवं प्रजासन) नियम 2014 के नियम 10 के साथ प्रतित कंपनी स्वाच-राज्य पर स्तामाया करना। (अवना एव असारा) गायन, 2014 का गायन 10 करना आविनियम, 2013 की घारा 91 के अनुसार, कंपनी के सरदारों वा राजिस्टर और शेयर हस्तीतरण ब्राहीखाते वार्षिक आम बैठक में शेयरघारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से 19 सितंबर, 2025 से 25 सितंबर, 2025 तक (होनों हिन समितित) बंह रहेंगे। इसके अतिरिक्त सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट के सटीक पाथ सहित वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारक को भेजा जा रहा है जिनकी ईमेल आईडी आरटीए/कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है।

वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.polymedicure.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिय लिमिटेड, क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com, तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./ कंपनी सचिव इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

वेतीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) नेयमावली, 2002 (जिसे आगे "नियमावली" कहा जाएगा) के नियम 8(6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना। तदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि इंडिया शेल्टर फाइनैंड कार्पोरेशन लिमिटेड (इसमें आगे प्रत्याभृत लेनदार कही गई है) के पास बंधक/प्रभारित निन्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा प्रतिभृत लेनदार, पंजीकृत कार्यालय पता : छठा तल

प्लॉट — 15. इंस्टीट्यूबनल एरिया, सेक्टर—44, गुरुग्राम, हरियाणा—122002 सीआईएन : यूढ़9822एवआर1998पीएलसी042782 फोन नंबर +91—124—4131900 के प्राधिकृत अधिकारी हारा दिखा जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जवारों, सह-कर्जवारों तथा गारंटरों से कठाय सांधि की वसूती के लिए नीचे वर्णित तिथि को **'जैसी है जहां है', जैसी है जो है' तथा 'जो भी है वहां है'** आधार पर बेची जाएंगी। यह बिकी प्राधिकृत अधिकारी हारा नीचे वर्णित स्थान पर की जाएगी। **ऋष्य खाता नंबर/ बारा 192) के तहत मांग कआ की तिथि और प्रकार चुर्खित गूल्य सम्पत्ति के निरीक्षण की**

46-1 GHUI 1447	4141 13(2) 47 464 1111	And Al Klid All VALL	Arien Sea	सन्तराय का गायबान का
एपी नंबर और कर्जदार(रों) /सह-	सूचना की तिथि और राशि	भौतिक कब्जा	₹. 5,70,000/-	तिथि एवं समय 23-09-2025
कर्जदार(रॉ) / गारंटर(रॉ) का नाम	10-07-2024 तथा	23-06-2025	ं (रूपये पांच लाख सत्तर	(निरीक्षण का समय : पूर्वा 10.00
HLSRCHLONS000005039257/	▼. 6.18.345 /—	कुल बकाया	हजार मात्र)।	बजे से अप. 05.00 बजे तक
AP-10084550	(रुपये छह लाख अठारह	₹. 6,18,345/-	घरोहर राशि जमा (ईएमडी)	ईएमडी जमा की अंतिम तिथि
श्री / श्रीमती अमनदीप कौर एवं	(रुपय छह लाख अठारह	(रुपये छह लाख अठारह हजार तीन सौ	₹ 57,000 /-	24-09-2025
आ/आनता अननदाप कार एव	हजार तान सा पतालास मात्र)	(रुपये छह लाख अठारह हजार तीन सौ पँतालीस मात्र) 09-07-2024 तक बकाया	(रूपये सत्तावन	नीलामी की तिथि एवं समय
श्री/श्रीमती कुलविंदर सिंह,		+ 10-05-2024 से आगे ब्याज		24-09-2025 (नीलामी समय : पूर्वा
	10,000 /-	1 10 00 2024 (1 0111 1411)	हजार मात्र)	10.00 बजे से अप 05.00 बजे तक)
अन्य समानि / प्रतिस्त आदित का वर्णन : स	गतिन को सभी अंग गतं खंड - उ	प्रमानित के सभी अंग गतं खंड : गतना संबर १	7 वटी नंबर 155 शक 1 बीबी	गाम पंचायत । प्रचान तदबील पत

भीगानगर-3500, जुल बेशकत 2500 वर्ग छीट, सीमा:- पूर्व- सत्तात कर तमा अरा ५ वर्ष च - क्या निवाद कि निवाद कि निवाद भीगानगर-3500, जुल बेशकत 2500 वर्ग छीट, सीमा:- पूर्व- सत्तात प्रथम:- पुर्गन्त सिंह, उत्तर- पात सिंह, दिविण- तमा **जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान** : नंबर 1. प्रथम तल, ब्लॉक जी, गुरुद्वारा रोड, निकट नानक दरबार, जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, 6 जैंड, राजस्थान-35500! **पुगतान की विधि** भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्जोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्रागट/आरटीजीएस/एनईएकटी द्वारा किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शतों के लिए, कृपया प्रतिमृत लेनदार की वेबसाइट www.indiashei अथवा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें – श्री विनय राणा (+91 7988605030)



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक अंशदाई स्वास्थ्य योजना स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सैल) वायुसेना स्टेशन सरसावा ईमेल आई0डी0 : oicechspolysarsawa@gmail.com



ı. ईसीएचएस एयर फोर्स स्टेशन सरसावा निम्नलिखित पद के लिये ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक सरसावा, सहारनपुर (यूपी) में अनुबंध के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकरणीय/एक वर्ष की अतिरिक्त अवधिके लिये/प्रर्दशन के आधार पर अधिकतम आयु प्राप्त करने तक संलग्न करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित मानदंडों के अनुसार आवेदन आमंत्रित करता है। :-

नियुक्ति	न्यूनतम योग्यता	रिक्ति की सं0	निश्चित परिश्रमिक
चिकित्सा अधिकारी	एमबीबीएस, न्यूनतम ३ वर्ष का अनुभव इंटर्नाशिप के बाद। मेडिसिन/सर्जरी में अतिरिक्त योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी ।	01	Rs. 75,000/-
फार्मासिस्ट	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में बी.एससी. डिग्री या (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान स्ट्रीम (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) के साथ 10+2 उत्तीर्ण और (ii) भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में अनुमोदित डिप्लोमा और फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत और न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव	01	Rs. 28,100/-
लैब टैक	(i) बी.एससी. (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी) या (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ मैट्रिकुलेशन/हायर सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी (10+2) और (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और मेडिकल लैब में लैब सहायक के रूप में 03 वर्ष का अनुभव।	01	Rs. 28,100/-
डेंटल हीजेनिस्ट	डेंटल हाइजीन में डिप्लोमा धारक / कक्षा 1 डीएच / डोरा कोर्स (सशस्त्र बल) और डेंटल लैबोरेटरी में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	01	Rs. 28,100/-
चपरासी	शिक्षा—कक्षा ८ जीडी ट्रेड (सशस्त्र बल) एवं न्यूनतम ०५ वर्ष का अनुभव	01	Rs. 16,800/-
सफाईवाला	साक्षर एवं न्युनतम ०५ वर्ष का अनुभव	01	Rs. 16,800/-

मुख्यालय (ईसीएचएस सेल) एयर फोर्स स्टेशन सरसावाँ, सहारनपुर (यूपी) से, मोबाइल नंबर +91–7889847591 और ई–मेल आईडी oicechspolysarsawa@gmail.com पर संपर्क करें। विवरण के लिए ईसीएंचएस पोलीक्लिनक, एयर फोर्स स्टेशन सरसावा से भी संपर्क करें। भूतपूर्व पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः** शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर सभी प्रमाणपत्रो की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ अपेक्षित गरूप के अनुसार आवेदन ओआईसी, एसटीएन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल) एयर फोर्स स्टेशन सरसावा, सहारनपुर (यूपी) में 28 सितम्बर 2025 को 12:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। 28 सितम्बर 2025 के बाद प्राप्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

४. साक्षात्कार तिथि, समय एवं स्थानः उम्मीदवार को 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 0930 बजे स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल) एयर फोर्स स्टेशन सरसावा, सहारनपुर (यूपी) पहुंचना होगा। (यदि साक्षात्कार की तारीख में कोई बदलाव होता है, तो बाद में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा) साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को सभी मूल प्रमाण पत्र/मार्कशीट/डिग्री/मैट्रिक/ 10+2 और ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन/डिप्लोमा/कोर्स, कार्य अनुभव, आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सर्विस रिकॉर्ड और दो पीपी आंकार के रंगीन फोटो साथ लाने होंगे। कोई टीए / डीए स्वींकार्य नहीं है। केवल पात्र उम्मीदवार ही आवेदन करें । केवल पात्र उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।

Note : — चयनित उम्मीदवारों को अनुबंघ पर हस्ताक्षर करने से पहले ईएचएस पॉलीक्लिनिक में 10 दिनों का ऑन जॉब प्रशिक्षण लेना होगा और ओआईसी ईएचएस पॉलीक्लिनिक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

policy bazaar 🔊



paisabazaar 🚳

पीबी फिनटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट संख्या 119, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122001, हरियाणा फोनः 0124-4562900, फैक्सः 0124-4562907, वेबसाइटः <u>www.pbfintech.in</u>: ई-मेलः <u>cosec@policybazaar.com; complianceofficer@pbfintech.in</u>

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली पीबी फिनटेक लिमिटेड की 17वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के संबंध में सूचना

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**'अधिनियम'**), उसके तहत निर्मित नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय **("एमसीए"**, द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपन्न संख्या 09/2024 और इस संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य परिपन्नों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**'सेवी**') द्वारा जारी 03 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 और इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों (सामूहिक रूप से **"परिपत्र"** संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए पीबी फिनटेक लिमिटेड ('कंपनी') की 17वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को 11 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट **("वार्षिक रिपोर्ट")** नियत समय में, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोंड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके नाम शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभगोगी स्वामियों की सूबी में दर्ज हैं और जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.pbfintech.in, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> ई-वोटिंग एजेंसी यानी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **("एमयूएफजी"**) https://instavote.linkintime.co.in/ और कंपनी के रिजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") यानी एमयुएफजी की वेबसाइट www.in.mpms.mufg.com पर भी उपलब्ध होगा। वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना की मौतिक प्रतियाँ उन सदस्यों को मेजी जाएँगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन शेयरधारकों को, जिन्होंने कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं. एक पत्र भेजा जा रहा है जिसमें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध होगा, जिसमें सटीक पाथ सहित वेब–लिंक भी शामिल होगा।

सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (**'ई—वोटिंग'**) के माध्यम से नोटिस में बताए अनुसार व्यवसाय पर अपना वोट डाल सकते हैं। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए वोटिंग का तरीका, जिसमें रिमोटली बोटिंग (**'रिमोट ई—वोटिंग'**) भी शामिल है, नोटिस में दिया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट -वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकेंगे।

ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करने का तरीकाः

दिनांक: 3 सितंबर, 2025

स्थानः गुरुग्राम

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, एमयूएफजी के साथ ई–मेल पते पंजीकृत करके। उनकी वेबसाइट www.in.mpms.mufg.com पर Investor Services टैब पर दिए गए लिंक पर विलक करें, ई-मेल पंजीकरण शीर्षक चुनें और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नाम, डीपी आईडी/ग्राहक आईडी, पैन, मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य एमयूएफजी को rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com या delhi@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल

ख. इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, कंपनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डीपी के साथ डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकत/अपडेट करके।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने सीमित उद्देश्य के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत सदस्य निम्नलिखित लिंक पर जाकर अपने ई–मेल पते अस्थायी रूप से अपडेट कर सकते हैं: https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email Register.html, सदस्य शेयरधारकों के संघार, जैसे वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 और एजीएम की सूचना, प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते अपडेट कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना और विषेश रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका या एजीएम में ई-वोटिंग को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

यदि शेयरधारकों ∕ सदस्यों को लॉगिन ∕ ई—वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे <u>Instameet@in.mpms.mufg.com</u> पर ई—मेल भेज सकते हैं या फोनः 022-4918 6000/4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं या कंपनी के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी को complianceofficer@pbfintech.in या cosec@policybazaar.com पर ई—मेल लिखें। निदेशक मंडल के आदेशानसार

पीबी फिनटेक लिमिटेड के लिए भास्कर जोशी कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्याः F8032

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः अहलवालिया चेम्बर्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 16 एवं 17, स्थानीय

सेंटर, मदनगीर, पुष्पा भवन के पास, नई दिल्ली-110062 वेबसाइट: www.deenakhuilders.co.in

सीआईएन: L45309DL2017PLC323467

आठवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग सूचना सतद्वारा सूचित किया जाता है कि दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (कंपनी) वं सदस्यों की आठवीं (८वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, २७ सितंबर, २०२५ को प्राट 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 औ उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के सभी तानू प्रावधानों के साथ पठित, के अनुपालन में आयोजित की जाएगी इस मामले पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक रुप नागर पर जनार नागरा के नेत्रारा का त्या होंगे जात नागरा के अनुसार, पान्य आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित अनुसार कारोबार करने के लिए। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार

तथा 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालर द्वारा जारी पूर्व परिपत्रों के अनुरूप, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसर . सदस्यों की सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। बैठक का अनुमानित स्थल कंपर्न का पंजीकृत कार्यालय होगा।

का पंजावृत्त कायालय हागा। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024–25, उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते 29 अगरत, 2025 तक कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास पंजीकृत हैं। कंपनी ने उन शेयरधारकों को भी पत्र भेजा है जिनके ई-मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, ताकि वे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट देख सकें।

की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी https://www-deepakbuilders.co.in/wp-content/uploads/2025/09/Annual Report-2024-25-pdf पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटा www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। साथ ही, केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट www,kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम

2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को मेसर्स केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही हैं। दूरस्थ ई–बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे IST) से शुरू होती है और शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे प्जे) को समाप्त होती है। इसके बाद केफिनटेक द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ईं-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा सदस्यों के मताधिकार, कट-ऑफ तिथि अर्थात शनिवार, 20 सितंबर, 2025 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ईं–वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है. वे एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन बैठक में दोबारा वोट देने के हकदा नहीं होंगे। जो व्यक्ति कट—ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सुचना के उद्देश्य से ही लेना चाहिए।

नाभांश और रिकॉर्ड तिथिः

निदेशक मंडल ने 4 जून, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 1 रुपये (अर्थात 10:) के अंतिम लामांश की सिफारिश की है। यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा लामांश को मंजूरी दे दी जाती है, तो निर्धारित समय के भीतर उन सदस्यों को लामांश का भुगतान किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। मंडल ने लामांश के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 20 सितंबर, 2025 को निर्धारित किया है। लामांश मुगतान हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से कंपनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही 21 सितंबर, 2025 से 23 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे लामांश सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते के विवरण को सत्यापित और अद्यतः

लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी:

गेयरधारक ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961, जिसे वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधि किया गया है, के अनसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद कंपनियों द्वारा भगतान या वितरित लाभांश ारपा नांचा है, के जुड़ात, निजर, 2020 के वाच करानाचा होता दुनाता ना पंचारता लागांव प्राप्तकर्ता के हाथों में कर योग्य है। इसलिए, कंपनी को शेयरघारकों को अंतिम लागांश का मुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती करनी होगी। कटौती की जाने वाली कर की दर . होयरधारक की आवासीय स्थिति और शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत और कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों पर निर्भर करती है।

जिन शेयरधारकों के शेयर डीमैट मोड में हैं और जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी और /या अन केवाईसी विवरण पंजीकृत या अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित

डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ इसे पंजीकृत और अपडेट करें। वार्षिक आम बैठक की ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नधशिकायत के लिए, 1800–309–4001 पर कॉल कर सकते हैं या श्री एन. श्याम कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक– केफिनटेक को einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

स्थानः लुघियाना

াবেন্সাত্র इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरकर्ता / -

(दीपक कुमार सिंघल)

(डीआईएन: 01562688)

सीआईएन : L73100HR2009PLC126450 पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : पाँचवीं मंजिल , टावर सी , यूनिटेक साइबर पार्क नक्टर ३९, गुरुग्राम, हरियाणा १२२० ० १ मारत | दूरमाष: +91-124-4272967 ई–मेल: investors@infollion.com|वेबसाइट: www. infollion.com

16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना — ई—वोटिंग की जानकारी

इसकें द्वारा सुचित किया जाता है कि **इन्फोस्तियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी)** के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैटक (एजीएम) **शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को सुबह 11 वजे आयो**जित की जाएगी। कंपनी अभिनियम, 2013 और उसके तहन बनाए पर नियमों के लागू प्रायमार्ग के अनुपातन में एकू सामान्य रथल पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-अव्य माध्यमां वीसी / ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से (आईएसटी) सामान्य परिपन्न संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 मंघिनियम की घारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा।

अविनियम की बारा 103 के अंतर्गत गणपूर्णि के लिए गैना जाएगा।
कपनी ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए वीत्ती सुविधा और ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु
एनस्पूरफर्जी इनाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को
रिजिस्ट्रार एवं शेवर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए / एमयूएफजी इनटाइम) के रूप में सेवा प्रदाता नियुक्त
किया है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) संबंधी परिएजों के अनुपालन में , 16वीं वार्षिक आम बैठक
(एजीएम) की पूमना और वित्त वर्ष 2024—25 की व्यक्ति
इंतर्जुद्रिनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को मेज दी गई है, जिन्होंने कंपनी/ कंपनी के आरटीए
या डिपॉलिज्टिश प्रविमागियों (डीपी) के साथ अपने इंसेल पत्रे पंजीकृत किए हैं। उपरोक्त
इंतरावेज, जिसमें रिमोट ई—वोटिंग की प्रक्रिया और तरीकं, एजीएम में ई—वोटिंग और
वीती/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में माग लेने के निर्देश भी शामिल है, कंपनी की वेससाइट
https://investors.infollion.com/16th-annual-general-meeting, स्टॉक एक्सचेंक यानी नेशनल
स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और आरटीए की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/ पर उपलब्द हैं।

गायुक्त आराज्यक्यायाः आराज्यातां एक व्याप्त २००० व्याप्त । अविनियम की याग 108 के प्रावधानों के अनुषार, इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सुधीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य वैठको पर सचिवीय मानको (एसएस – 2) के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों ऐसिकिय या बीनेट रूप में शेयर रखने वाढ़ों को एजीएम की सुचान में नियादित किसी एक या रसी प्रस्तावों पर इसेक्ट्रॉनिक मृाध्यम (ई—वोटिंग) के माध्यम सेवोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने अरताथ पर इलेक्ट्रानिक मध्यम (इं-पाटा-) के मध्यम न बोट देन के अर्थन न अधिकार का अयोग करने की सुविधा प्रवास कर रही है। सदस्य एमयुएफणी इन्टाइम के इलेक्ट्रीनिक बोटिंग एकेटफॉर्म के उपयोग करके, यहां-नीधे—उल्लिखित तिथियों पर अपने वोट दूरस्थ रूप से (रिमोट ई-वोटिंग) डाल सकते है। इस अबिध के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रीनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए इवेट नंबर 255522 को चायन कर सकते हैं एणीएम के दौरान सरस्यों के लिए इवेट नंबर 255522 को चायन कर सकते हैं एणीएम के दौरान सरस्यों के लिए इवेट नंबर अपनी कीटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट नहीं डाला है, वे ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में मतदान करकार्य के स्व सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि:

क) 16वीं वार्षिक आम बैठक को सूचना में उल्लिखित सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, अर्थात् रिमोट ई—बोटिंग या वार्षिक आम बैठक में इं—बोटिंग के माध्यम से किए जाएँगे, ख) रिमोट ई-बोटिंग मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को प्रात: 9:00 बजे (IST) से शुरू होकर

[रुवार, 25 सितंबर, 2025 को साथं 5:00 बजे (IST) पर समाप्त होगी । उक्त तिथि और समय पुरुष्ता २, २६ सिपाब, २००८ कर से पाइन के बाद होगा है के बाद स्वारंट होगा किसी इस्ताव पर मतदान के बाद रिगोर ई-चौटिंग की अनुमति नोई होगी । एक बार सदस्य हारा किसी इस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नाई होगी । हार्शी वार्षिक आने वेठक के दौरान रिगोर ई-चौटिंग या ई-चौटिंग के माध्यम से सतदान करने की पाइता निर्धारित करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 हैं ।

) कोई भी व्यक्ति जो ईमेल के माध्यम से 16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी क

सदस्य बन गया है और अंतिम तिथि यानी शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 तक शेयर रखता है, वह सदस्य बन गया हु आर आतमा ताथ याना सुक्रवार, 19 सिताबर, 2025 तक शवर रखता है, यह निर्धी वाणिक आम बैठक की सूचना में र जिल्लिखत निर्देशों का पातन करके या enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर या निम्न नवरों पर संपर्क करके लॉगिन आईं औ और पासबर्ड प्राप्त कर सकता है: — दूरभाष 022—491880001 हालॉिक, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई—वोटिंग के लिए लिक इनटाइम इस्टावोट के साथ पहले से पंजीकृत है, तो बोट डालने के लिए मीजूदा उपयोगकर्ता आईंडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है! । सदस्य(यों) के मतदान अधिकार कंपनी की चुकता इविवटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगें, जो कट—ऑफ तिथि यानी सुक्रवार, 19 सिताबर, 2025 को होंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम सरकारों के रीक्टर में स्वट व्यक्तिक्वित स्वार प्राप्त प्राप्त मार्किक के प्राप्त स्वरूप में करने स्वरूप में स्वर्ण स्वरूप में स्वर्ण स्वरूप में स्वरूप स्वरूप में स्वरूप में स्वरूप में स्वरूप में स्वरूप स्वरूप स्वरूप में स्वरूप स्वरू

सदस्यों के रजिस्टर में या ढिपॉजिंटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट—ऑफ तिथि तक दर्ज है, यह केवल एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग के माध्यम से वोट करने का

उपकार होगा। सदस्यों को एजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और वे सदस्य जो एजीएम में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना बोट नहीं डाला है, वे एजीएम में

 वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी वीसी, ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन एजीएम में फिर से वोट करने के पाउ

इंमेल पता, भी बाइल नंबर और बैंक खाता अधिदेश पंजीकृत / अपकेट करने का तरीकाः जिन सदस्यों के ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डीपी के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे 16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए दूरस्थ ई-वोटिन और वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिय के निर्देशों का पासन कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने आमी ईमेल आईडी आंजीकृत महीं की, उत्तरेश अनुस्थित हैं। के वे कपनी में बार्षिक रिपोर्ट, सूचना आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई

प्रक्रिया के अनुसार उन्हें पंजीकृत करें: नीतिक रूप से – विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म **आईएसआर** –1 के साथ सहायक दस्तावेज कंपनी व भौतिक रूप सं - विधिवत हस्ताक्षीरंत फोम आईएसआए - 1 के साथ सहायक दस्तावेज करनी व आरटीए-प्नपूर्णजों इंटाइस पहिल्या प्राइवेट विलिटेड (पूर्व में एनयूएजजों इंटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को, या तो प्लॉट नंबर एनएच-2. सी-1 ब्लॉक, "गोबल हाइट्स" प्रथम तल, एलएससी सावित्री मार्केट के पास, जनक पुरी, कोन: +91-11-49411000 पर उनके कार्यालय में या vishal.diwi@in,mprns.mufg.com पर ईमेल द्वारा मेजें। उक्त फोर्म कंपनी की वेबसाइट www.infollion.com परभी उपलब्ध है।

हुए में के इक्टिटी शेयर डीमेंट रूप में रखने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे अपने संबंधित टीपी के सार कपना के इविवटा श्वयर खोगट कपा में रखन वाल संदरचा से अनुराध है कि वंअपन संबाधित डोपां के साथ अपना इंमेल पान, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पर्जीकृत /सरायित/ अपडेट करें । यदि किसी संदर्भ का ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पहले से पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लोगिन क्रेडेशियल संबंधित सदस्य के पंजीकृत ईमेल आईडी पर 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएग) की पुन्ता और दिना वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ पेनो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मुख्यम से ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, संदर्श्यों से

अनुरोध है कि वे एमयूजीएफ इनटाइम को enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजें या कंपनी सचिव को investors@infollion.com पर लिखें।

इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड के लिए

हस्ता/— मेघा रस्तोगी कंपनी सथिव और अनुपालन अधिकारी तिथि : 04 सितंबर, 2025

epaper.jansatta.com